

तुरंत रिलीज के लिए

सीडी सैटर्डे के दस वर्ष! वसंत के सीजन की शुरुआत, 2022 के वर्चुअल सीडी सैटर्डे और गार्डन शो के साथ करें

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 मार्च, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का सीडी सैटर्डे (Seedy Saturday) और गार्डन शो (Garden Show), शनिवार, 12 मार्च, सुबह 10 बजे से शुरू करते हुए, अपने ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ दस वर्षों का जशन मना रहा है।

2022 का वर्चुअल (आभासी) सीडी सैटर्डे और गार्डन शो, ब्रैम्पटन हॉर्टिकल्चरल सोसायटी (Brampton Horticultural Society) के साथ साझेदारी में पेश किया जा रहा है। इसमें निम्नलिखित, पर्यावरणीय विशेषज्ञों के बागबानी संबंधी वीडियो पेश किए जाएंगे:

- ग्रोइंग ग्रेट वेजिटेबल्स (Growing Great Vegetables) पर बढ़िया सुझावों के साथ जेम्स ग्राहम (James Graham)
- ऑर्गेनिक मैजिक विद वॉर्म्स (Organic Magic with Worms) पर कैथी नेस्बिट (Cathy Nesbitt)
- हेयरलूम्स एंड सीड सेविंग (Heirlooms and Seed Saving) पर लिंडा क्रैगो (Linda Crago)
- इम्पोर्टेंस ऑफ पोलिनेटर्स (Importance of Pollinators) पर शेली कैंडल (Shelly Candell)
- ग्रोइंग अ सक्सेसफुल सीड सेविंग गार्डन (Growing a Successful Seed Saving Garden) पर बॉब वाइल्डफोंग (Bob Wildfong)
- सॉयल एंड द थिंग्स लिविंग इन इट (Soil and The Things Living in It) पर शॉन जेम्स (Sean James)
- गार्डनिंग इन अ चेजिंग क्लाइमेट (Gardening in a Changing Climate) पर क्रिस्टोफर बाइलेक (Christopher Bialek)
- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ट्री डूज एंड डॉट्स टॉक (City of Brampton Tree Do's and Don'ts Talk) के साथ एड हनविक्स (Ed Hunwicks) और ट्रेवर ली (Trevor Lee)

चाहे आप बागबानी में नए हैं या आपको इसका अनुभव है, 12 मार्च को पूरा दिन www.brampton.ca/seedysaturday देखें। इसमें आपको बागबानी संबंधी संसाधनों तक पहुंचने, लोकल बागबानी विक्रेताओं से जुड़ने, प्रिंट करने योग्य गतिविधियों और वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ किडज़ ज़ोन (Kids Zone) का मज़ा लेने और यह सीखने का अवसर मिलेगा कि [ब्रैम्पटन हॉर्टिकल्चरल सोसायटी \(Brampton Horticultural Society\)](http://www.brampton.ca/seedysaturday) के साथ कर्बसाइड (पगडंडी के किनारे से वस्तुएं लेना) बीज अदला-बदली करने में कैसे हिस्सा लेना है।

हवाले

“ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है और हम निवासियों को बागबानी और हॉर्टिकल्चर के बारे में जानने की सलाह देते हैं। शनिवार, 12 मार्च को, ब्रैम्पटन का वर्चुअल सीडी सैटर्डे और गार्डन शो देखें और हमारे साथ, इस क्लासिक कार्यक्रम के 10 वर्षों का जशन मनाएं!”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हर वर्ष, ब्रैम्पटन का सीडी सैटर्डे और गार्डन शो, वसंत के सीजन की शुरुआत करने के लिए, बागबानी संबंधी विशेषज्ञों, बागबानी के शौकीनों और हॉर्टिकल्चर में नए व्यक्तियों को इकट्ठे लाता है। कम्युनिटी के हिस्से के तौर पर, विशेषज्ञ सेमिनार वीडियो देखने और बागबानी संबंधी जानकारी और संसाधनों तक पहुंच के लिए, 12 मार्च को ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ें।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“बागबानी एक शानदार गतिविधि है, जो कम्युनिटी के स्वास्थ्य और तंदरुस्ती में सहायता करती है। इस वर्ष, 12 मार्च को ब्रैम्पटन के 10^{वां} सालाना ऑनलाइन सीडी सैटर्डे और गार्डन शो में विशेषज्ञ वीडियो, बच्चों की गतिविधियों और कर्बसाइड बीज अदला-बदली करने जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद लें।”

- शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“इस वर्ष हम, ब्रैम्पटन हॉर्टिकल्चर सोसायटी के साथ ब्रैम्पटन का 10^{वां} सालाना, ऑनलाइन सीडी सैटर्डे और गार्डन शो पेश करने के लिए उत्साहित हैं। बागबानी, स्थिरता और अधिक ग्रीन जीवन के बारे में जानें!”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम सी.ए.ओ., सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca